



दिनांक- 06.08.2022

थाना सट्टी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर शातिर चोर को मोटर साइकिल व 01 अदद अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार किया गया!

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर के कुशल नेतृत्व में थाना सट्टी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 01 शातिर चोर को दिनांक 12.08.2022 को **01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल** सहित गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि राकेश कुमार पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम कुरौली थाना कुठौन्द जनपद जालौन का निवासी है दिनांक 08.08.2022 को पुखरायाँ के होम्योपैथिक अस्पताल में अपना इलाज कराने आया था इसी दौरान उक्त की मोटर साइकिल UP 92 X 1326 अस्पताल के पास से चोरी हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 305/2022 धारा-379 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात थाना भोगनीपुर में पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. गोलू उर्फ आसिफ पुत्र जलील अहमद निवासी ग्राम द्वारिकापुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक- 12.08.2022 को थाना भोगनापुर में चोरी हुयी मोटर साइकिल व 01 अदद नाजायज तमंचा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

घटना कारित करने का तरीका- पूँछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने दोस्त के साथ राह चलते मोटर साइकिल सवार लोगों से मदद/लिफ्ट माँगता था और इसी बहाने व वाहन स्वामी से बाते करते हुये दोस्ती करने का प्रयास करता था और वाहन स्वामी को इधर-उधर वाहन से थोड़ा दूर अपने साथ लेकर चला जाता था इसी दौरान हमारा दूसरा साथी वाहन चोरी कर लेता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. गोलू उर्फ आसिफ पुत्र जलील अहमद निवासी ग्राम द्वारिकापुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

01 अदद मोटर साइकिल

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-107/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

2. मु0अ0सं0- 305/2022 धारा 379 भादवि0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उमेश चन्द्र यादव थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

2. का0 228 नीरज कुमार थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

3. का0 994 अर्जुन चौधरी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात।**